

पतरस क पहिली पत्र

1 पतरस कईती स, जउन ईसू मसीह क प्रेरित अहइ, परमेस्सर क उ चुने भए लोगन क नाउँ जउन पुन्तुस, गलातिया, कप्पुदुकिया, एसिया अउर बिथुनिया क छेत्रन में सब कहूँ फैले अहई।² तू जेनका परमपिता परमेस्सर क पूर्व गिथान क हिसाब स चुना गवा अहइ, जउन अपनी आत्मा क पवित्तर करइ जिनका ओनकइ आज्ञाकारी होइ खातिर अउर जेनपइ ईसू मसीह क लहू छिड़काव स पवित्तर कीन्ह जाइ क खातिर चुना गवा रहा तू पचन्क ऊपर परमेस्सर क अनुग्रह अउर सांति ज्यादा स ज्यादा होत रहइ।

सजीव आसा

³ हमरे परभू ईसू मसीह क परमपिता परमेस्सर धन्य होइ। मरे भए में स ईसू मसीह फिन जिअइ क कारण स ओकर अपार करुणा में स सजीव आसा पावइ खातिर उ हमका नवा जनम दिहे अहइ।⁴ जेहिसे सरग में सुरच्छित ढंग स रखे भए अजर-अमर अउर जेनका नस्ट नहीं कीन्ह जाइ सकत सरगे में तोहरे बरे सुरच्छित अहइ।⁵ जे आपन बिसवास दुआरा परमेस्सर स सुरच्छित अहई ओनका उ उद्धार जउन समइ क अंतिम कोना में प्रकट होइ क हइ, मिल जाइ।⁶ एह पइ तू बहुत प्रसन्न अहा। मुला अब तू पचन्क तनिक बेर खातिर तरह तरह क इम्तहान में पड़िके दुखी होब जरूरी अहइ।

⁷ जेहिसे तू पचन्क जउन परखा नासवान भवा बिसवास अहइ, जउन आगी में परखा नासवान सोनो स ज्यादा कीमती अहइ, ओहका जब ईसू मसीह परगट होई, परमेस्सर स प्रसंसा महिमा अउर आदर मिलइ चाही।

⁸ तू पचे ईसू मसीह क देखे नहीं अहा, मुला तू पचे ओसे पिरेम करत अहा। चाहे तू पचे ओका दइ नहीं पाए रह्या ह, मुला तबउ ओहमें बिसवास रखत अहा अउर एक अइसे आनन्द स भरा भवा अहा जउन कहइ लायक नहीं अहइ अउर महिमावान अहइ।⁹ अउर तू पचे अपने बिसवास क कारण लच्छ तक पहुँच रहे अहा जेहसे आत्मा क तउ उद्धार होइ।¹⁰ उद्धार क बारे में उ नबियन बड़े मेहनत स पता लगाइन हइ अउर बड़ी हुसयारी स पता खोजेन हइ, जउन तउ प परगट होइवाले अनुग्रह क भविस्सबाणी क दिहे रहेन।¹¹ उ नबियन मसीह क आत्मा स इ जानिन जउन मसीह प होइवाले दुखन क बतावत रही अउर उ महिमा

जउन इ दुखन क बाद परगट होई। इ आत्मा ओनका बतावत रही। इ बातन इ दुनिया में कब होईहीं अउर तब इ दुनिया में का होइ।¹² ओनका इ देखाइ दीन्ह गवा रहा कि उ बातन क प्रवचन करत भए उ पचे आपन सेवा खुदइ नहीं करत रहेन बल्कि तोहार सबन्क करत रहेन। उ बतियन तू सबन्क सरग स पठए गए पवित्तर आत्मा क द्वारा तू पचन क ओन लोगन स जउन सुसमाचार मिला जे तोहरे बरे लिआवत रहेन। अउर उ बातन क जानइ खातिर सरगदूतन तरसत अहई।

पवित्तर जीवन खातिर बुलावा

¹³ इ खातिर आपन दिमाग काम क बरे तैय्यार रखा अउर अपने ऊपर नियंत्रण रखा। उ बरदान जउन ईसू मसीह क परगट अहइ प तू पचन्क मिलइवाला अहइ, पूरी आसा रखा।¹⁴ आज्ञा मानइवाले बचवन क नाई उ समइ क बुरी इच्छन क हिसाब स अपने क न ढाला जउन तू पचन में पहिले स रहीं जब तू पचे अज्ञानी रह्या।¹⁵ बल्कि जइसे तू सबन क उ परमेस्सर जउन सबन्क बोलावत अहइ पवित्तर अहइ उहइ क तरह अपने करमन में पवित्तर बना।¹⁶ पवित्तर सास्तरन में लिखा अहइ: “पवित्तर बना, काहेकि मई पवित्तर अहउँ।” *

¹⁷ अउर अगर तउ प्रत्येक करमन क हिसाब स पच्छपात रहित होइके निआव करइवाले परमेस्सर क हे पिता! कहिके पुकारत अहा तउ उ परमेस्सर सबन क संग बिना भेद-भाव क निआव करत ह। तउ इ परदेसी धरती में अपने रहइ वाले दिनन क इज्जत अउर परमेस्सर क डर क साथ बितावा।¹⁸ तुम इ जानत अहा कि सोना या चाँदी जइसेन वस्तुअन स तू पचे उ व्यर्थ जीवन स छुटकारा नहीं पाइ सकत अहा जउन तू पचन क तोहरे पूर्वजन स मिला बाटइ।¹⁹ बल्कि उ तउ तू पचन के निर्दोस अउर कलंक रहित मेमने क समान मसीह क कीमती लहू स तू सबन क मिल सकत ह।²⁰ इ संसार क बनइ स पहिलेन ओहका चुन लीन्ह गवा रहा मुला तू पचे खातिर अन्तिम दिनन में परगट कीन्ह गवा ह।²¹ उ मसीह क कारण तू पचे उ परमेस्सर में बिसवास करत रह्या जउन मरे भएन में स जियाइ

दिहसे अउर महिमा दिहसे। इ तरह परमेस्सर मैं तोहारे आसा अउर बिसवास स्थिर अहइ।

²²अब तू सत्य क पालन करत भए, नीक भाईचारा अउर पिरेम क प्रदर्शित करइ खातिर अपने आतिमा क पवित्तर क लिहे अहा, पवित्तर हिरदय क साथ परस्पर पिरेम क आपन लच्छ बनाइ ल्या। ²³तू नासमान बीज स फिन स जीवन प्राप्त नाहीं किहा ह बल्कि इ उ बीज क परिणाम अहइ जउन अमर हइ। तोहारे पुनर्जनम परमेस्सर क उ नीक सन्देश स भवा अहइ जउन जिअत अहइ अउर हमेसा अटल रहत ह। ²⁴काहेकि पवित्तर सास्तर कहत ह,

“प्राणी त सबइ घास बरोबर अहइँ, अउर ओनके सज, धज सब घास क फूलन जइसी, घास सूख जात ह अउर फूल उड़ जात हीं

²⁵ मुला टिका रहत ह परमेस्सर क इ संदेसा सदा हीं।”

यसायाह 40:6-8

इ उहइ नीक संदेस अहइ जेहका तोहका उपदेस दीन्ह गवा ह।

सजीव पाथर अउर पवित्तर प्रजा

2 इहइ खातिर सब बुराइयन, छल-छदम पाखण्ड अउर बैर-विरोधन अउर दुसरे क दोख मइइ स अलग रहा। ²नवजात बचवन क तरह सुद्ध आत्मिक दूध खातिर ललचावा करा जेहिसे तोहार विकास अउर तोहका बचावा जाइ सकइ। ³अब देखा तू पचे तउ परमेस्सर क अच्छाई क स्वाद तउ लइ ही लिहे अहा।

⁴ओह क लगे आवा। उ सजीव “पत्थर” अहइ। वहिका संसारी लोगन क नकार दिहे रहा मुला उ परमेस्सर खातिर बहुमूल्य अहइ अउर जउन ओकरे द्वारा चुना गवा अहइ। ⁵तू पचे भी सजीव पाथरन क तरह एक आत्मिक मंदिर क रूप मैं बनाइ जात अहा। जइसेन पवित्तर याजकन क रूप मैं सेवा कइ सका। जेहिमा कर्तव्य अइसेन आत्मिक बलिदानन क समर्पित करब अहइ जउन ईसू मसीह क द्वारा परमेस्सर क ग्रहन करइ लायक होइ। ⁶पवित्तर सास्तर मैं लिखा बा :

“देखउ, मइँ राखत हउँ सिय्योन मैं कोने क पत्थर एक जउन अहइ बहुमूल्य अउर अहइ चुना गवा ओहि पइ जउन बिसवास करी ओका कबहुँ क लजाइ न परी।”

यसायाह 28:16

⁷एकर मूल्य तउ ओहके बरे अहइ जउन बिसवास करत हीं मुला ओनके खातिर जउन बिसवास नाहीं करत अहइँ:

“उ पाथर जेहिका सिल्पियन नकारिन बन गवा सबसे महत्वपूर्ण कोने क पाथर।”

भजन संहिता 118:22

⁸ तथा उ बन गया:

“एक पाथर जहाँ लोग ठोकर खाइ अउर अइसी चट्टान जहाँ स मनई फिसल जाई।”

यसायाह 8:14

लोग ठोकर खात हीं काहेकि उ परमेस्सर क वचन क पालन नाहीं करतेन बस ओनकइ इही नीत रही बाटइ।

⁹मुला तुम तउ चुने भए लोग अहा, याजकन क राज्य, एक पवित्तर राष्ट्र एक अइसेन मनइयन जउन परमेस्सर क आपन अहइँ, जइसेन तउ परमेस्सर क अचरज कारजन क घोषणा कइ सका।” उ परमेस्सर जउन तोहका अन्धकार स अद्भुत प्रकास मैं बोलाइस ह।

¹⁰एक समइ रहा जब तुम परमेस्सर क लोग नाहीं रह्या। मुला अब तुम परमेस्सर क लोग अहा। एक समइ रहा जब दया क पात्र नाहीं रह्या मुला अब तू सबन प परमेस्सर दया देखाइस ह।

परमेस्सर खातिर जिआ

¹¹पिआरे वन्धुयन, तू पचे इ संसार मैं अतिथि अउर अजनबी क रूप मैं अहा एह बरे मइँ तू पचन स निवेदन करत अहउँ कि उ सारीरिक इच्छन स दूर रहा जउन तोहारे पचन क आतिमा स जड़त हीं।

¹²अबिसवासियन मैं आपन व्यवहार ऐतना नीक बनाए रहा कि चाहे उ अपराधियन क रूप मैं तोहार सबन क आलोचना करइँ मुला तोहरे नीक कर्मन क परिणाम सरूप परमेस्सर क आवइ क दिन मैं परमेस्सर क महिमा प्रदान करा।

अधिकारी क आज्ञा माना

¹³पभूँ खातिर हर मानवीय अधिकारिक क अधीन रहा। ¹⁴राजा क अधीन रहा। उ सर्वोच्च अधिकारी अहइ। सासकन क अधीन रहा। उ ओनका कुकर्मियन क दण्ड देइ खातिर अउर नीक काम क प्रसंसा करइ खातिर भेजे अहइ। ¹⁵काहेकि परमेस्सर क इहइ इच्छा अहइ कि उ अपने नीक कर्मन स मूरखन क अगियान भरी बातन क चुप कराइ देइ। ¹⁶स्वतंत्र मनइयन क तरह जिआ मुला स्वतंत्रता क बुरे कर्मन क आइ न बनइ द्या। परमेस्सर क सेवक बनके जिआ। ¹⁷सबन क सम्मान करा। अपने धरम भाइयन तथा बहिनियन स पिरेम करा। परमेस्सर प श्रद्धा रखा। सासक क सम्मान करा।

मसीह की यातना क दिस्टान

¹⁸सेवको, यथोचित आदर क साथ अपने स्वामियन क अधीन रहा। न केवल ओनके जउन नीक बाटेन अउर दूसरे क खातिर चिंता करत अहई बल्कि ओनके बरे जउन कठोर अहई। ¹⁹काहेकि यदि कउनो परमेस्सर क उपस्थिति क प्रति सचेत रहत भए यातना सहत ह अउर अन्याय झेलत ह तउ उ प्रसंसनीय अहइ। ²⁰मुला अगर बुरे करम क खातिर तोहका पीटा जात ह अउर तू ओका सहत ह तउ एहिमी प्रसंसा क कउन बात अहइ, मुला अगर तोहरे कर्मन खातिर तोहका कस्ट दीन्ह जात ह तउ परमेस्सर क सामने उ प्रसंसा क योग्य अहइ। ²¹परमेस्सर तोहका इ खातिर बोलाइस ह काहेकि मसीह हमरे बरे दुख उठाइस ह अउर इ कइके हमरे बरे एक उदाहरण छोड़िस ह ताकि मई ओही क चरण चिन्हन प चल सकऊँ।

22 “उ (मसीह) कउनो पाप नाहीं किहेस अउर न ही ओकरे मुँहे स कउनो छल की बात निकरी।”

यसायाह 53:9

²³जब उ अपमानित भवा तउ उ कउनो क अपमान नाहीं किहेस अउर जब उ दुख झेलिस, उ कउनो क धमकी नाहीं दिहस, बल्कि उ सच्चे निआव करइवाले परमेस्सर क आगे अपने क अर्पित कइ दिहेस। ²⁴उ क्रूस अपने देह मँ हमरे पापन क ओढ़ लिहिस। जइसेन अपने पापन क प्रति हमार मउत होई जाइ अउर जउन कछू नेक अहइ मई ओकरे बरे जिई, ई उ घावन क कारन भवा ह जेनसे तू पचे चंगे कीन्ह गए रहया। ²⁵काहेकि तुम भेड़न क समान भटके रहया अउर अब तू पचे अपने गड़रिया अउर अपनी आतिमन क बचइया लगे लौटि आए अहा।

पत्नी अउर पति

3 इही तरह पत्नियन अपने पतियन क अधीनता मानत रहई। जइसेन यदि ओनमँ स कउनो परमेस्सर क उपदेस क पालन नाहीं करतिन तब उ पचे कछू तोहरे पवित्तर अउर आदरपूर्ण चाल चलन स जीत लीन्ह जाई, बिना कउनो बात-चीत क उ सबइ जउनने तरह तू पचे अच्छी तरह स रहति अहा।

²तोहार पति लोग तोहार पवित्तर जीवन क देखिहीं जउन तरह तू पचे परमेस्सर क आदर देत भए रहबिउ। ³तोहार साज सिंगार बाहरी न होइ क चाही मतलब जउन बात क चोटी गुहइ, सोने क आभूषण पहिरइ अउर नीक नीक कपड़ा पहिरइ स होत ह। ⁴बल्कि तोहार सिंगार तउ तोहरे भीतर क व्यक्तित्व होइ चाही जउन कोमल सान्त आतिमा क अविनासी सौन्दर्य स

युक्त होइ। परमेस्सर क दृष्टि मँ जउन मूल्यवान होइ। ⁵काहेकि बीते जुगा मँ उ सबइ स्त्रियन क, अपने क सजावइ क इही ढंग रहा, जइसेन ओनकर सबइ आसा परमेस्सर प टिकी अहई उ पचे अपने पति क अधीन रहत रहिन।

⁶जइसेन इब्राहीम क आज्ञा मानइवाली रहइवाली सारा जउन ओका आपन स्वामी मानत रही। तू पचे भी अगर नीक काम करत अहा अउर डेरात नाहीं अहा तउ सारा क बिटिया ही अहा।

⁷जइसेन ही तू सबइ पति लोग, अपनी पत्नियन क साथ समझदारी स रहा, काहेकि वह सारीरिक दृष्टि स कमजोर अहई। जीवन क बरदान मँ ओनका आपन उत्तराधिकारी माना जइसेन तोहरे पराथना मँ बाधा न पड़इ।

सत्कर्मन क खातिर दुख झेलब

⁸आखिर मँ तुम पचेन क सान्ति स रहइ चाही। एक दुसरे क समझइ क कोसिस करा। एक दुसरे स भाइयन क तरह पियेम करा। दयालु अउर नरम बना। ⁹एक बुराई क बदला दूसर बुराई स न द्या न कि गाली क बदले गाली द्या। एकरे विपरीत आसीस द्या। काहेकि परमेस्सर तोह पजन क आसीबाद देइ बरे बोलाएस ह। इही स तू पचन्क परमेस्सर क आसीबाद क उत्तराधिकार मिली ¹⁰पवित्तर सास्तर कहत ह:

“जउन जीवन क आनन्द उठावइ चाहइ जउन समइ की सद्गति क देखइ चाहइ चाही ओका कि कबहुँ बुरा न बोलइ उ अपने ओठन क छल वाणी स रौकइ

¹¹ बुराई स अपने क अलग रखइ। उ करइ सदा उ नेक करमन क जउन अहइ नीक चाही ओका कर जतन सान्ति पावइ चाही ओका अनुसरण करइ सान्ति क

¹² पभू की आँखिन अहई टिकी ओनहिन प जो नीक अहई लागे कान पभू क ओनकी पराथना प पर जउन करत अहई बुरा करम मुँहना सदा फेरत अहइ पभू ओनसे।”

भजन संहिता 34:12-16

¹³अगर जउन उत्तम अहइ तू पचे उहइ क करइ क लालायित रहा तउ भला कउनो तोह सबन क नुकसान पहुँचाइ सकत ह। ¹⁴मुला अगर तोहका भले क खातिर दुख उठावइ क पड़इ तउ तू सब धन्य अहा। “इही खातिर कउनो क भय स भयभीत न रहा अउर न परेसान हवा अउर न विचालित।” * ¹⁵अपने मन मँ

“इही ... विचालित” यसा 8:12

मसीह क पर्भू क प्रति नरम हवा, श्रद्धा स नत हवा! तू जउन बिसवास रखत अहा अगर कउनो ओकरे बारे में पूछइ तउ सदा उत्तर देइ क तैयार रहा।

¹⁶मुला विनम्रता अउर आदर क साथ अइसा करा। आपन हिरदइ सुद्ध राखा जइसेन अपने अच्छे मसीह व्यवहार स तोहरे नीक गुणन क निंदा करइवाले तोहार अपमान करत भए लजाइँ। ¹⁷अगर परमेस्सर क इही इच्छा अहइ कि इ अच्छा बाटइ अच्छे काम करत भये दुख उठावा इ नाही कि बुरा काम करत भए।

¹⁸काहेकि ईसू मसीह भी हमरे पाप खातिर दुख उठाइस। मतलब उ निर्दोष रहइ हम सबइ पापियन खातिर एक बार मरि गवा ताकि हमका परमेस्सर क नगीचे लइ जाइ। सरीर क भाव स तउ उ मारा गवा मुला आतिमा में जियावा गवा। ¹⁹आतिमा क स्थिति में उ जाइके जउन जेल में बंदी आतिमन रहिन ओन बंदी भइन आतिमन क उपदेस दिहेस। ²⁰जउन उ समइ परमेस्सर क आज्ञा न मानइवाली सबइ आतिमा रहिन जब नूह क नाव बनाई जात रही अउर परमेस्सर बड़े धीरज क साथ प्रतीच्छा करत रहा उ नाव में थोडेन-मतलब आठइ मनई पानी स बचावा जाय सकेन। ²¹इ पानी उ बपतिस्मा क तरह अहइ जेहिसे अब तोहार उद्धार होत अहइ। बपतिस्मा सरीर क मेल क छोड़ावइ बरे नाही अहइ, बल्कि सुद्ध अंतःकरण खातिर परमेस्सर स बिनती अहइ। अब तउ बपतिस्मा तोहका ईसू मसीह क पुनरुत्थान क द्वारा बचावत अहइ। ²²उ ईसू सरग में गवा अउर अब परमेस्सर क दाहिने हाथ बिराजमान अहइ अउर अब सरगदूत, अधिकारियन अउर सबइ सक्तियन ओकरे अधीन कइ दीन्ह गइ अहइँ।

बदला भवा जीवन

4 जब मसीह सारीरिक कस्ट उठाइस तउ तू पचे उहइ मानसिकता क सास्तर क तरह धारण करा काहेकि जउन सरीर स दुख उठावत ह उ पापन स छुटकारा पाइ लेत ह ²इ बरे फिन मनइयन बुरी इच्छा क अनुसरण न करइँ। बल्कि परमेस्सर क इच्छा क हिसाब स करम करत भए अपने बाकी भौतिक जीवन क सर्मापित कइ देइँ। ³काहेकि तुम अबहिं तक अबोध व्यक्तियन क तरह किसय भोग, सब वासना, पियकड़पन, उन्माद स भरे गए आमोद-प्रमोद, मधुपान उत्सवन अउर घृणा-पूर्ण मूर्ति पूजा में बहोतइ जियादा समइ बिताइ चुका अहा। ⁴अब जब तू जंगली अउर निरर्थक रहन-सहन में साथ नाही देत अहा तउ ओनका अचरज होत ह। उ पचे तोहार निंदा करत हीं। ⁵ओनका जउन मर चुका अहइँ या जिन्दा अहइँ, अपने व्यवहार क लेखा जोखा मसीह क देइ क पड़ी जउन ओनकइ निआव करइवाला अहइ। ⁶इही बरे ओन बिसवासियन क जउन मर चुका बाटेन सुसमाचार क उपदेस दीन्ह

गवा अहइ कि सारीरिक रूप स चाहे निआव मनइयन क स्तर पइ होइ मुला आत्मिक रूप स परमेस्सर क अनुसार रहइँ।

नीक प्रबन्धकर्ता बना

⁷उ समइ निकट अहइ जब सबइ कछू क अन्त होइ जाई। एह बरे समझदार बना अउर अपने प काबू राखा ताकि तोहका पराथना करइ मैं सहायता मिलइ ⁸अउर सबसे बड़ी बात इ अहइ कि एक दूसरे क प्रति लगातार पिरेम बनाए राखा काहेकि पिरेम स अनगिनत पापन क निवारण होत ह। ⁹बिना कछू कहे सुने एक दूसरे क स्वागत सत्कार करा।

¹⁰जउन परमेस्सर कइँती स केउ क बरदान मिला ह, ओका चाही कि परमेस्सर क नीक प्रबन्धकन क समान, एक दुसरे क सेवा खातिर ओका काम में लावइ। ¹¹जउन प्रबचन करइ, उ अइसा करइ मानो परमेस्सर स निकरे बचनन क सुने रहा होइ। जउन सेवा करइ उ इ सकती स करइ जेहमाँ परमेस्सर प्रदान करत ह जेहिसे सबइ बातन में ईसू मसीह क द्वारा परमेस्सर क महिमा होइ। महिमा अउर सामर्थ्य सदा सर्वदा उही क अहइ। आमीन।

मसीह क रूप में दुख उठाउब

¹²पिआरे बन्धुअन, तोहरे बीच क ई अग्नि परीच्छा क जउन तोहका परखइ खातिर होइ, ऐसे अचरज जिन करा जइसेन तोहरे साथ कउनो अनहोनी घटना घटत होइ। ¹³बल्कि आनन्द मनाआ कि तू पचे ईसू मसीह क सबइ यातना मैं हिस्सा बतावत अहा। ताकि जब ओनकइ महिमा परगट तउ तुमइ आनन्दित अउर मगन रहि सका। ¹⁴यदि मसीह क नाउं प तू पचे अपमानित होत अहा तउ तू ओका सहा काहेकि तउ मसीह क अनुयायी अहा, तू धन्य अहा काहेकि परमेस्सर क महिमावान आतिमा तोहरे साथ बाटइ। ¹⁵तउ तू पचेन मैं स कउनो हत्यारा चोर, कुकर्मि अथवा दूसरे क काम मैं हस्तक्षेप करइवाला बनके दुख न उठावइ। ¹⁶मुला अगर उ मसीही क अनुयायी होइ क कारण दुख उठावत ह तउ ओका लज्जित न होइ क चाही। ओका तउ परमेस्सर इस नाउं क बरे धन्यवाद देइ चाही। ¹⁷काहेकि परमेस्सर क अपनेन परिवार स सुरू होइके निआव सुरू करइ क समइ आइ पहुँचा अहइ। अउर अगर इ हमहिन स सुरू होत ह तउ जउन परमेस्सर क नीक सुसमाचार क स्वीकार नाही कीन्ह हई। ओनमाँ का होई। ¹⁸अउर "यदि एक अच्छे व्यक्ति का उद्धार क पाउब कठिन अहइ तउ परमेस्सर विहीन अउर पापियन क साथे का होई।" *

¹⁹तउ फिन जउन परमेस्सर क इच्छानुसार दुख उठावत ह, ओनका नीक काम करत भए, उ बिसवासमय, सिस्टी क रचयिता क आपन आपन आतिमा सौप देइ क चाही।

परमेस्सर क जनसमूह

5 अब मई तोहरे बीच जउन बुजुर्ग अहई ओनसे निवेदन करित हउँ मई खुद एक बुजुर्ग अहउँ अउर मसीह जउन यातना झेलिस ह, ओके साच्छी हउँ, जउन ओकर भावी महिमा परगट होई ओकर सहभागी हउँ।

²राह देखावइवाले परमेस्सर क जनसमूह तोहरी देख-रेख मँ अहइ अउर निरीच्छक क रूप मँ तू ओकर सेवा करत अहा, कउनो दबाव क कारण नाही बल्कि परमेस्सर क इच्छानुसार अइसा करा कि अपनी इच्छा क कारण तू आपन इ काम धन क लालच मँ नाही बल्कि सेवा करइ क प्रति अपनी ततपरता क कारण करत अहा।

³देख-रेख क खातिर नाही जउन तोहका सौपा गवा अहइ तू ओनके सासक न बना। बल्कि समूह बरे आदर्स बना।

⁴ताकि जब उ प प्रमुख गडेरिया परगट होइ तउ तोहका विजय क उ भव्य मुकुट प्राप्त होइ जेकर सोभा कबहूँ नाही घटतइ।

⁵इही तरह हे नवयुवको तू पचे अपने धर्मवृद्ध क अधीन रहा। तू पचे दुसरे क प्रति विनम्रता स सेवा करा। काहेकि,

“करत ह परमेस्सर विरोध अभिमानी क मुला दीनन प, अनुग्रहसील सदा रहत ह।”

नीतिवचन 3:34

⁶इ खातिर परमेस्सर क सक्तिशाली हाथन क नीचे अपने आपको नवावा। जेहिसे ठीक अवसर आवइ पै उ तोहका ऊँचा उठावइ। ⁷तू पचे आपन सबइ चिन्ता ओह पै छोड़ द्या काहेकि उ तोहरे खातिर चिन्तित अहइ।

⁸अपने प नियंत्रण राखा। सावधान रहा। तोहार सनु सइतान एक गरजत सेर क तरह इधर उधर घूमत रहत ह अउर इही ताक मँ रहत ह कि जउन मिलइ ओका फाड़ खावइ। ⁹तू ओकर विरोध करा अउर अपने बिसवास प अड़ा रहा काहेकि तू तउ जानत अहा कि सारे संसार मँ तोहरे भाई बहिन इहइ तरह क यातना झेलत अहई।

¹⁰मुला सम्पूर्ण अनुग्रह क झोत परमेस्सर जउन तोहका ईसू मसीह मँ अनन्त महिमा क सहभागी होय खातिर बोलाइस ह, तोहरे तनिक समइ सबइ यातना झेलइ क बाद खुदइ तोहका फिन स स्थापित करी, समर्थ बनाई अउर स्थिरता प्रदान करी।

¹¹सबहिं सक्तियन अनन्त अनन्त तक ओकरे अधिकार मँ अहई। आमीन।

पत्र क समापन

¹²मई तोहका इ छोट स पत्र, सिलवानुस क सहयोग स, जेहका मई बिसवास पूर्ण भाई मानित हउँ, तोहका प्रोत्साहित करइ खातिर परमेस्सर क सच्चा अनुग्रह उही अहइ, इही बात क साच्छी देइ क खातिर लिखेउँ ह, इही प अड़े रहा।

¹³बेबीलोन की कलीसिया जउन तोहरे समान परमेस्सर द्वारा चुनी गइ अहइ, तोहका नमस्कार करत अहइ। मसीह मँ मोरे बेटवा मरकुस क तोहका नमस्कार।

¹⁴पिरेमपूर्ण चुम्बन स एक दूसरे क स्वागत सत्कार करा।

तू सबइ क, जउन ईसू मसीह मँ अहई, सान्ति मिलइ।

License Agreement for Bible Texts

World Bible Translation Center

Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center

All rights reserved.

These Scriptures:

- Are copyrighted by World Bible Translation Center.
- Are not public domain.
- May not be altered or modified in any form.
- May not be sold or offered for sale in any form.
- May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online ad space).
- May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included.
- May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: "Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission." If the text quoted is from one of WBTC's non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for "HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™." The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC's text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as "ERV" for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC's text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center

P.O. Box 820648

Fort Worth, Texas 76182, USA

Telephone: 1-817-595-1664

Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE

E-mail: info@wbtc.com

WBTC's web site – World Bible Translation Center's web site: <http://www.wbtc.org>

Order online – To order a copy of our texts online, go to: <http://www.wbtc.org>

Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at: <http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm>

Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: <http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: <http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html>